



# HPL Electric & Power Limited

CIN : L74899DL1992PLC048945

Corporate Office: 76-B, Phase-IV, Sector-57, HSIIDC Industrial Estate,  
Kundli-131028, Sonapat, Haryana INDIA.

Tel.: +91-130-350 3958, 350 3437 | E-mail: hpl@hplindia.com

Website: www.hplindia.com

23<sup>rd</sup> October, 2024

The Manager,  
Listing Department,  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
"Exchange Plaza", C-1, Block G,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai – 400 051  
**Symbol: HPL**

**BSE Limited**  
25<sup>th</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda  
Building, PhirozeJeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 540136**

**Sub: Newspaper Advertisement(s) of Notice regarding transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority**

Please find enclosed herewith copy of the Notice published today in Business Standard (English and Hindi Editions) regarding notice for transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The aforesaid Notice has also been uploaded on the website of the Company at <https://www.hplindia.com/>

This is for your kind information and record please.

Thanking You,

For HPL Electric & Power Limited

Vivek Kumar  
Company Secretary

Encl: As Above

## BAJAJ FINANCE LIMITED

CIN: L65910MH1987PLC042961

Registered Office: Akurdi, Pune - 411 035 | Corporate Office: 4th Floor, Bajaj Finserv Corporate Office, Off Pune - Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune - 411 014 | Tel.: 020-71576403 Fax: 020-71576364  
E-mail ID: investor.service@bajajfinserv.in | Website: https://www.aboutbajajfinserv.com/finance-about-us

### Extract of unaudited consolidated financial results for the Quarter and Half year ended 30 September 2024

Sr. No.	Particulars	₹ in crore		
		Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)
1	Revenue from operations	17,090.27	33,188.94	13,381.93
2	Profit before tax	5,401.48	10,666.83	4,757.76
3	Profit after tax	4,013.74	7,925.72	3,550.80
4	Total comprehensive income (Comprising profit for the period and other comprehensive income after tax)	4,004.44	7,959.72	3,572.97
5	Paid-up equity share capital	123.73	123.73	121.06
6	Other equity as shown in the Balance Sheet of the previous year			76,571.75
7	Earnings per share (not annualised) (Face value of ₹ 2 each)	6.46	127.95	58.67
	Diluted (*)	6.45	127.60	58.45

Key standalone financial information is given below:

Sr. No.	Particulars	₹ in crore		
		Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)
1	Total Income	14,491.79	28,217.53	11,411.02
2	Profit before exceptional items and tax	4,646.61	9,249.05	4,190.81
3	Profit before tax	7,190.72	11,793.16	4,190.81
4	Profit after tax	5,613.71	9,015.25	3,105.75

Note: The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September 2024 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting held on 22 October 2024, subjected to limited review by joint statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 35 and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other recognised accounting practices generally accepted in India along with the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) and the National Housing Bank (NHB) from time to time. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at: https://www.aboutbajajfinserv.com/finance-about-us, www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Pune  
22 October 2024

By order of the Board of Directors  
For Bajaj Finance Limited  
Rajeev Jain  
Managing Director

## Huhtamaki

### Huhtamaki India Limited

Registered Office: 7<sup>th</sup> Floor, Bellona, The Walk, Hiranandani Estate, Ghodbunder Road, Thane West/Thane Road, Thane (W) - 401 004  
CIN: L21011MH1995FLC145537, Phone No.: (022) 6174 0100

#### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Sr. No.	Particulars	₹ in Million		
		Quarter ended 30-Sep-24	Nine Months ended 30-Sep-24	Quarter ended 30-Sep-23
1	Total Income from Operations	6,525.0	19,020.7	6,624.8
2	Profit from Operations before Exceptional item and tax	143.2	707.4	304.0
3	Profit before tax	158.5	1,017.5	304.0
4	Profit for the period	117.1	762.8	322.7
5	Total Comprehensive Income for the period	114.2	759.6	316.6
6	Equity Share Capital	151.1	151.1	151.1
7	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of previous year			11,353.5
8	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (not annualised)			
	Basic & Diluted after exceptional item	1.55	10.10	4.27
	Basic & Diluted before exceptional item	1.45	7.00	4.27

a) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Oct 22, 2024.

b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results is available on the websites of the Stock Exchange and the Company.

For Huhtamaki India Ltd.  
Dhananjay Salunke  
Managing Director

Thane, October 22, 2024  
Visit us at our website: www.flexibles.huhtamaki.in

## PG ELECTROPLAST LIMITED

(CIN: L32109DL2003PLC191416)  
Registered Office: D1J-209, 2nd Floor, DLF Tower-8, Jasola, New Delhi-110028  
Corporate Office: P4-2, 2nd Floor, UIC/PC, Industrial Area, Surajpur, Greater Noida, Dist. Gautam Buddha Nagar (U.P.) -201306  
Tel No: +91-120-2592923 Fax No: +91-120-2592931 Email: info@pgel.com Website: www.pgell.com

### NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION TO THE MEMBERS

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of PG Electroplast Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Wednesday, November 13, 2024, at 11:00 A.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other audio-visual means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PO-2/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of EGM.

The process of sending the Notice of EGM along with login details for joining the EGM through VCO/AVM facility including e-voting has been completed on October 22, 2024 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent ("STA") and their respective Depository Participants in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, as well as the same are also available on Company's website at www.pgell.com, Stock Exchanges' websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at www.evoting.kfintech.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to EGM) and e-voting (during the EGM) services provided by KFinTech on all resolutions set forth in the Notice of EGM. The notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting and by e-voting at the time of EGM and join the EGM through VCO/AVM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. November 08, 2024 ("cut-off date") may cast their votes electronically on the resolutions as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of KFinTech.

All the members are informed that:

- The businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting shall commence on **November 10, 2024 at 9:00 A.M. (IST)**.
- The remote e-voting shall end on **November 12, 2024 at 5:00 P.M. (IST)**.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the EGM is **November 08, 2024**, and a person who is not a member as on the cut-off date may treat this Notice for information purposes only.
- A person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice of EGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM or write an email to us at [investors@pgell.com](mailto:investors@pgell.com). If such a person is already registered with KFinTech for e-voting, an existing user ID and password can be used for casting a vote.
- Members may note that: a) the remote e-voting mode shall be disabled by the KFinTech after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.
- Mrs. Pooja Mishra & Co., a Practising Company Secretary (ACS No. 42927, C.P. No. 11748) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process at the EGM in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.
- The Scrutinizer will submit its final report after the conclusion of voting at the EGM but not later than 2 (two) working days from the closure of the EGM, and the Chairman of the meeting or any other person authorized by him, in that behalf shall announce the result of voting on the resolutions taken up at the EGM simultaneously upon submission of final report by the Scrutinizer. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at [www.pgell.com](http://www.pgell.com) and simultaneously be communicated to the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India ("NSE") and KFinTech and be displayed at the registered office of the Company.
- Members having demat accounts in NSDL & CDSL, facing any technical issue in login for e-voting can contact NSDL helpline by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call toll free no. 18001020990 and 1800224430 AND can contact CDSL helpline by sending a request at [helpline.evoting@cdsl.com](mailto:helpline.evoting@cdsl.com) or contact at 022-23093788 or 022-23096424.
- Members having any queries regarding e-voting during the EGM or requiring technical assistance before or during the EGM to access and participate in the Meeting may contact KFin at [enquiries@kfintech.com](mailto:enquiries@kfintech.com) or Helpline: 18003094001. Members are advised to keep their email ID and mobile number registered with the Depository/Depository Participant to receive timely communications.

For PG Electroplast Limited  
Sd/-  
Sanjay Dubey  
Company Secretary

Date: Greater Noida  
Date: October 22, 2024

## SJVN Thermal (P) Ltd.

CIN: U31908BR2007PTC017546  
A Wholly Owned Subsidiary of "SJVN Ltd. - A Navratna Company under Govt. of India"

PRESS NOTICE E-Tender No. PCD: 84/2024  
Open tender enquiry through e-tender on Domestic Competitive Bidding (DCB) are invited on behalf of SJVN Thermal (P) Ltd. (STPL) for "Construction of RCC Road from Gatishakti Multi Model Cargo Terminal (CCT) to BTTP Plant Boundary, Earth Filling work for Gatishakti Wharf Phase-2 and RCC Road along the Wharf at Gatishakti at Chausa, Buxar, Bihar. For more details, please visit website: <https://letender.sjvn.com>, [www.sjvn.in](http://www.sjvn.in) and [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in). Last date for bid submission is 22.11.2024 (1400hrs). Amendment(s), if any, shall be issued on above websites only.

Head (Contracts), STPL  
Main Office Building, STPL, BTTP, Chausa, Buxar, Bihar-802114  
Telephone No: 06183 295265; Email: [pcdbtp@sjvn.in](mailto:pcdbtp@sjvn.in)

## यूको बैंक

Zonal Office - Old G. D. Road, Durga Mandir Complex, First Floor, Near Bus Stand, Karnal-132001, Ph. 0184-0221154, Email: [zoharyana@ucobank.co.in](mailto:zoharyana@ucobank.co.in)

### NOTICE U/S 13(12) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI)

A notice is hereby given that the following Borrower(s) have defaulted in the repayment of principal and interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets on 27.08.2024. The notice under section 13(12) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 were issued to Borrower(s) / Guarantor(s) at their last known addresses by registered / speed post. However the notices have been returned un-served and the Authorised Officer has reasons to believe that the Borrower(s) / Guarantor(s) are avoiding the service of notice, as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

Name of the Branch/ Borrower & Director/Guarantor	Security agreement with Brief Description of Securities	Date of Demand Notice	Amount as per demand notice (Rs.)	Nature and type of facility
1) Sonipat (2148)	Residential Property M.C. Property ID No. 6561511u200P/Khewat No. 219, 23, 237, Khata No. 283, 302, & 299-300 & 305-306, 307, Total Land Area 150,00 Sqyds, Waka Mouja Patti Jattan, situated at Near s/o Umred Singh Prop No. Bajaj Bharat Petroleum Gali No. 13, Indian Colony, Gohana Road, Sonapat, Haryana (131001)	21.09.2024	Rs. 37,39,895 (Thirty Seven lakhs thirty nine thousand eight hundred ninety five rupees)	Term Loan
2) Sonipat (2148)	Residential Property M.C. Property ID No. 6561511u200P/Khewat No. 219, 23, 237, Khata No. 283, 302, & 299-300 & 305-306, 307, Total Land Area 150,00 Sqyds, Waka Mouja Patti Jattan, situated at Near s/o Umred Singh Prop No. Bajaj Bharat Petroleum Gali No. 13, Indian Colony, Gohana Road, Sonapat, Haryana (131001)	21.09.2024	Rs. 37,39,895 (Thirty Seven lakhs thirty nine thousand eight hundred ninety five rupees)	Term Loan

Please note that, interest will continue to accrue at the rates specified in para 1 above for each credit facility until payment in full. We invite your attention to Sub-Section 13 of the said Act in terms of which you are barred from transferring any of the secured assets referred to in para 1 above by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) without obtaining our prior written consent. We may add that non-compliance with the above provision contained in Section 13 (13) of the said Act, is an offence punishable under section 29 of the Act. We further invite your attention to Sub-section (8) of section 13 of the said Act in terms of which you may redeem the secured assets, if the amount of dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank is tendered by you, at any time before the date of publication of notice for public auction / inviting quotations / tender / private treaty. Please note that after publication of the notice as above, your right to redeem the secured assets will not be available. Please note that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we may have, including without limitation, the right to make further demands in respect of sums owing to us. The above Borrower(s) / Guarantor(s) are advised to pay the amount mentioned in notice within 60 days from the date of publication of Demand Notice following which further steps will be taken after the expiry of 60 days from the date of publication of Demand Notice as per provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Moreover the Borrower(s) / Guarantor(s) are hereby restrained from dealing with any of the above secured assets mentioned above in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. This Demand notice is subject to honorable Punjab & Haryana High Court order.

Dated: 22.10.2024 Place: Sonapat Authorized Officer: UC BANK

## Balkrishna industries limited

CIN: L59999MH1987PLC02185  
Regd. Office - B-65, Wajaj MIDC, Wajaj Industrial Area, Chhatrapati Sambhaji Nagar - 411038, Maharashtra, India  
Tel No: +91 22 6666 3800 Fax: +91 22 6666 38899  
Website: [www.bktires.com](http://www.bktires.com) [investor@bktires.com](mailto:investor@bktires.com)

### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed **Saturday, 2<sup>nd</sup> November, 2024** as record date for the purpose of ascertaining the eligibility of the shareholders for payment of 2<sup>nd</sup> Interim Dividend on equity shares for the financial year 2024-25 to be declared, if any at the Board Meeting of the Company to be held on **Friday, the 25<sup>th</sup> October, 2024**. The said 2<sup>nd</sup> Interim Dividend shall be credited/dispensed within 30 days from the date of declaration as per applicable provisions of Companies Act, 2013 to such Shareholders as per record date.

The said notice may be accessed on the Company's website at [www.bktires.com](http://www.bktires.com) and also on the Stock Exchanges website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Balkrishna Industries Limited  
Sd/-  
Vijul Shah  
Director & Company Secretary & Compliance Officer  
DIN: 05199526

Place: Mumbai  
Date: 21.10.2024

## INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED

Regd. off: 5<sup>th</sup> Floor, Building No. 27, KG Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001

### NOTICE FOR SALE OF STRESSED FINANCIAL ASSETS

Indiabulls Commercial Credit Limited, a non-banking financial company, invites Expression of Interest (EOI) along with non-disclosure agreement for sale of Stressed Financial Assets. Interested eligible investors are requested to intimate their willingness to participate in the auction by way of an "Expression of Interest". The data room will be open from Oct 22, 2024 to Nov 4, 2024, and last day for submission of bid is Nov 4, 2024.

For detailed terms and conditions, please mail us at: [loanassignment\\_iccl@indiabulls.com](mailto:loanassignment_iccl@indiabulls.com).

Mumbai, Oct 23, 2024

## HPI ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN: L74990DL1992PLC08485  
Regd. Office: 120, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002  
Tel: +91-11-22244111 Fax: +91-11-2222299  
E-mail: [hpi@hpiindia.com](mailto:hpi@hpiindia.com) Website: [www.hpiindia.com](http://www.hpiindia.com)

### NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IETF)

In terms of requirements of Section 124(b) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounts, Interest, Dividend, Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or undivided for a period of seven consecutive years, to the IETF Account established by the Central Government. A separate communication has been sent to all the Shareholders, who have not received the final dividend for the financial year 2016-17, which are liable to be transferred to IETF Account as per the said Rules.

A list of such shareholders who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IETF Account is available on the website of the Company at [www.hpiindia.com](http://www.hpiindia.com).

Shareholders are requested to forward the requisite documents, as per the aforementioned communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), to claim the unclaimed dividend amount and shares. Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the Shareholders, the Company would be transferring the said shares to IETF Account without further notice in accordance with the requirement of the said Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IETF Account under the said Rules. Please note that after such transfer, Shareholders/Claimants can claim the transferred shares along with dividends from the IETF Authority, for which details are available at [www.iefp.gov.in](http://www.iefp.gov.in).

For any information/clarifications on this matter, the concerned Shareholders/Claimants may write to the Company at [help@hpiindia.com](mailto:help@hpiindia.com) or to the RTA, M/s. KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gaschowli Financial District, Nanaknagar, Hyderabad - 500 032, Toll Free No.: 1800 309 4001, E-mail ID: [enward.ris@kfintech.com](mailto:enward.ris@kfintech.com).

For HPI Electric & Power Limited  
Sd/-  
Vivek Kumar  
Company Secretary  
Place: Kundli  
Date: 22.10.2024

## BUILDING A STRONGER FUTURE

TELECOM TOWERS | MONOPOLES | SMART CITY POLES | UTILITY POLES  
TRANSMISSION LINE TOWERS | SOLAR MODULE MOUNTING STRUCTURE | EPC

### Extracts of the Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2024

(Rs.) in lakhs except EPS

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30-Sep-24	30-Jun-24	30-Sep-24	30-Sep-24	31-Mar-24
Total Income from operation	28,148.96	29,399.76	27,535.26	57,548.72	53,721.20
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional/extraordinary item)	1,244.83	1,409.31	1,233.35	2,654.14	2,599.20
Net Profit/(Loss) for the period (after tax, exceptional/extraordinary item)	1,244.83	1,409.31	1,233.35	2,654.14	2,599.20
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional/extraordinary item)	967.77	1,049.29	905.16	2,017.06	1,919.88
Total Comprehensive Income for the period (Net of Tax)	968.51	1,049.29	905.16	2,017.80	1,919.88
Equity Share Capital	17,267.70	17,267.7	13,175.05	17,267.70	3,157.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)					29,245.31
Earning per Share (in Rs.)					
Basic	0.06	0.07	0.05	0.12	0.12
Diluted	0.06	0.07	0.05	0.12	0.12

3. Standalone Results as on 30-Sep-24 are as under-

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30-Sep-24	30-Jun-24	30-Sep-24	30-Sep-24	31-Mar-24
Total Income from operation	27,638.26	29,156.68	27,525.94	56,794.94	53,700.31
Profit Before Tax	1,131.22	1,307.18	1,240.15	2,438.40	2,603.64
Profit After Tax	892.25	982.50	920.22	1,874.75	1,933.36
Total Comprehensive Income	892.99	982.50	920.22	1,875.49	1,933.36

4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange in accordance with the Listing Regulations. The full format of the Quarterly Results are available on the stock exchange websites viz. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) & [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.salasartechno.com](http://www.salasartechno.com).

5. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practice and policies to the extent applicable.

5. Figures for the previous periods/year have been regrouped wherever necessary, to conform to the current period's classification.

For Salasar Techno Engineering Ltd.  
Sd/-  
Alok Kumar  
Managing Director  
DIN: 01474484

Date: 22.10.2024  
Place: Noida

## SALASAR TECHNO ENGINEERING LIMITED

CIN: L23201DL2001PLC174076  
Regd office: E-20, South Extension I, New Delhi-110049. Tel: +91-11-41648566/8577;  
E-mail id: [compliance@salasartechno.com](mailto:compliance@salasartechno.com), Website: [www.salasartechno.com](http://www.salasartechno.com)

